

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ

पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644

,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in,

Facebook-

policevaranasi

संख्या :पीआरओ /1052020

दिनांक: अक्टूबर ,

/182020

प्रेस नोट

दिनांक 17.10. को 2020थाना चौबेपुर-पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0503/ -धारा 2020
302/307/324/201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्ता गिरफ्तार

दिनांक 17.10. को थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा 2020देखभाल क्षेत्र व मुआयना घटनास्थल के दौरान मु0503 0सं0अ0/302 धारा 2020/307/324/भादवि से 201 सम्बन्धित अभियुक्ता को महिला आरक्षीगण की मदद से ग्राममुरीदपुर से समय करीब 17.बज 00े गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

- एक अभियुक्ता

गिरफ्तार करने वाली*पुलिस टीम का विवरण*-

- थानाध्यक्ष संजय त्रिपाठी, का0 अतुल कुमार यादव, का0 रोशन त्रिपाठी, म0का0 कविता चौधरी, म0का0 अमृता कुमारी थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-
policevaranasi

संख्या :पीआरओ /1062020

दिनांक: अक्टूबर ,

/182020

प्रेस नोट

दिनांक 17.10. को 2020उशासन द्वारा महिला 0प्र0 सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु प्रारम्भ किये गये “मिशन शक्ति” अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.10. 2020को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में "महिला हेल्प डेस्क" का शुभारम्भ किया गया। इस दौरान डॉ0 काजल- नोडल अधिकारी मिशन निदेशक द्वारा/थाना मण्डुवाडीह में बनायी गयी महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया व महिला थाना में बनाई गयी महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया।0इस दौरान डॉ काजल द्वारा महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त महिला कर्मचारियों से वार्ता कर हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।





"मिशन शक्ति" के माध्यम से जनपद के समस्त थानों पर महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके माध्यम से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु "महिला हेल्प डेस्क" की शुरूवात की गई है।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 , फ़ैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-
policevaranasi

संख्या :पीआरओ /1072020

दिनांक: अक्टूबर ,

/182020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 18-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 38 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *41 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1380 वाहनों का चालान, 07 वाहनों को सीज तथा 50 वाहनों से ₹0-41,900/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 18-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1195 व्यक्तियों से ₹0-59,400/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

